



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 35

27 नवंबर, 2020

संख्या 48

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां*

मद	2019		2020		घट - बढ़	
	22 नवंबर		13 नवंबर		सप्ताह	
	1	2	3	4	5	वर्ष
1 जारी नोट	2241273	2750861	2743964	-6897	502691	
1.1 संचलन में नोट	2241262	2750848	2743952	-6896	502690	
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	11	13	12	-1	1	
2 जमा राशियां						
2.1 केंद्र सरकार	101	101	101	0	0	
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना						
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0	
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	517462	459105	471488	12383	-45974	
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4255	5398	5209	-189	954	
2.6 अन्य बैंक	33691	29783	27981	-1802	-5710	
2.7 अन्य	310604	994154	983912	-10242	673308	
3 अन्य देयताएं	1136900	1481763	1465565	-16198	328665	
कुल देयताएं / आस्तियां	4244328	5721207	5698262	-22945	1453934	
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3015127	3987480	3982294	-5186	967167	
2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी	192307	271280	267074	-4206	74767	
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	999581	1282271	1281765	-506	282184	
4 ऋण और अग्रिम						
4.1 केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	
4.2 राज्य सरकारें	598	21447	10731	-10716	10133	
4.3 नाबार्ड	-	23402	23246	-156	23246	
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	24246	114588	114711	123	90465	
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	-	-	-	-	
4.8 अन्य	5180	12974	10563	-2411	5383	
5 खरीदे और धुनाए गए बिल						
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-	
5.2 खज़ाना	-	-	-	-	-	
6 निवेश	1964	1964	1964	0	-	
7 अन्य आस्तियां	5325	5801	5914	113	589	

*डाटा अनंतिम है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	20 नवंबर 2020		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
	को		सप्ताह		मार्च 2020 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	4266200	575290	-7952	2518	664044	97483	1046725	126694
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3953351	533103	-3610	2835	619536	90890	962634	116377
1.2 स्वर्ण	267075	36015	-4205	-339	36548	5436	74768	9219
1.3 विशेष आहरण अधिकार	11067	1492	-36	4	267	60	734	53
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	34707	4680	-100	19	7694	1097	8589	1045

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

20 नवंबर, 2020 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹434428 करोड़	2020													
	7 नवंबर	8 नवंबर	9 नवंबर	10 नवंबर	11 नवंबर	12 नवंबर	13 नवंबर	14 नवंबर	15 नवंबर	16 नवंबर	17 नवंबर	18 नवंबर	19 नवंबर	20 नवंबर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	433807	433674	424739	425036	426032	422217	459105	458798	458563	436361	418044	419291	419228	471488
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	99.9	99.8	97.8	97.8	98.1	97.2	105.7	105.6	105.6	100.4	96.2	96.5	96.5	108.5

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	6 नवंबर 2020 को बकाया	पखवाड़ा	निम्नलिखित अवधि में घटबढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2019-20	2020-21	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	203006	-2535	3252	-31342	32250	22926
1.2 बैंकों से उधार	54606	3300	-24294	-9395	-17129	-558
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	16481	649	-3828	317	-787	5169
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	14380641	89129	424207	813149	1172211	1382662
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.6	3.4	6.0	9.9	10.6
2.1.1 मांग	1492640	-12614	-185923	-124363	108593	167276
2.1.2 मीयादी	12888001	101743	610130	937512	1063617	1215386
2.2 उधारियां	258284	2945	-49423	-51155	-21144	-70547
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	604953	41052	-41943	1277	7386	103250
3 रिज़र्व बैंक से उधार	114463	-988	-157162	-171160	-83141	90937
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	537341	15399	-29603	-86105	57069	-73639
4.1 उपलब्ध नकदी	86485	1553	10739	-776	12165	869
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	450857	13846	-40342	-85329	44904	-74508
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	157891	8094	7258	2490	20030	-72415
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	11775	-1150	-22163	-8498	-14767	1686
5.3 बैंकों को अग्रिम	21187	114	-4321	-9345	-7042	-4127
5.4 अन्य आस्तियां	31830	-338	-7384	-22202	9806	-3665
6 निवेश	4476607	36374	376894	729258	314826	718657
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.8	11.1	19.5	9.1	19.1
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	4475180	36556	370371	736484	307607	725807
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1428	-183	6523	-7225	7218	-7150
7 बैंक ऋण	10404950	66082	74652	34089	734948	558575
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.6	0.8	0.3	8.1	5.7
7 क.1 खाद्य ऋण	83631	16972	38438	31867	19501	3583
7 क.2 खाद्येतर ऋण	10321319	49110	36214	2222	715447	554992
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	10236678	66870	122125	87170	750782	592560
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	24192	1033	-2110	-1466	4313	79
7 ख.3 भुनाए गए	99097	-941	-34583	-46586	-13972	-24616
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	16548	-691	-897	-3909	-2082	-7142
7 ख.5 भुनाए गए	28434	-188	-9883	-1120	-4094	-2305

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/समाप्त सप्ताह	2019	2020				
	22 नवंबर	23 अक्टूबर	30 अक्टूबर	6 नवंबर	13 नवंबर	20 नवंबर
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.50	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	4.65	3.65	..	3.74	..	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	76.09	72.34	..	72.35	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	23.03	-4.42	..	4.19	..	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	28.70	31.07	..	31.13	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	87.99	95.70	..	89.68	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	5.15	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
रिर्वर्स रेपो दर	4.90	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
बैंक दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
आधार दर	8.95/9.40	7.40/8.80	7.40/8.80	7.40/8.80	7.40/8.80	7.40/8.80
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	7.65/8.10	6.65/7.10	6.65/7.10	6.65/7.10	6.60/7.10	6.60/7.10
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.25/6.60	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50
बचत जमाराशि दर	3.25/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारत आसत)	5.05	3.27	3.19	3.17	3.20	3.13
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.02	3.19	3.20	3.17	3.14	2.98
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.13	3.35	3.36	3.36	3.35	3.34
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.17	3.46	3.45	3.43	3.45	3.42
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.66	5.88	5.91	5.90	5.91	5.92
@एफबीआईएल संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	71.85	73.58	73.97	74.05	74.67	74.16
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	79.52	86.78	86.97	87.52	88.15	88.15
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	3.26	3.34	3.24	3.32	3.37	3.32
3-माह	3.34	3.56	3.46	3.51	3.54	3.56
6-माह	3.76	4.00	3.89	3.94	4.07	4.18

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बैंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने अमरीका/डॉलर भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2019		2020	
	31 मार्च	6 नवंबर	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	16799963	17911125	107416	0.6	557537	3.6	1111162	6.6	1444849	9.9	1921521	12.0
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	2349748	2636629	17081	0.7	123961	6.0	286881	12.2	237345	12.2	460458	21.2
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	1737692	1613454	-12232	-0.8	-184691	-11.4	-124238	-7.1	111823	8.4	171633	11.9
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	12674016	13619385	101626	0.8	618137	5.3	945369	7.5	1088544	9.7	1279644	10.4
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	41658	941	2.3	130	0.4	3150	8.2	7138	28.9	9786	30.7
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4960362	5716014	128795	2.3	581318	13.2	755652	15.2	590201	13.5	746205	15.0
2.1.1 रिज़र्व बैंक	992192	996346	90892		208508		4154		279270		-14113	
2.1.2 अन्य बैंक	3968170	4719668	37903	0.8	372810	10.4	751498	18.9	310931	8.5	760318	19.2
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	11038644	11065229	65609	0.6	80470	0.8	26584	0.2	760275	7.8	602040	5.8
2.2.1 रिज़र्व बैंक	13166	14934	142		-8013		1768		-1969		7584	
2.2.2 अन्य बैंक	11025478	11050295	65467	0.6	88483	0.9	24816	0.2	762244	7.9	594456	5.7
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3801036	4447921	82326	1.9	322798	10.5	646885	17.0	404212	13.5	1054283	31.1
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	26348	26451	-	-	235	0.9	103	0.4	426	1.7	328	1.3
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	3026427	3344489	169314	5.3	427285	17.5	318063	10.5	310265	12.2	481335	16.8
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	1378342	1471603	59482	4.2	46776	4.4	93261	6.8	-40925	-3.6	366032	33.1

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2019		2020	
	31 मार्च	20 नवंबर	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	3029707	3317074	3639	0.1	84623	3.1	287367	9.5	308282	12.1	461970	16.2
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचालन में करेंसी	2447312	2770493	-6896	-0.2	130614	6.1	323181	13.2	256680	12.8	503108	22.2
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंक की जमाराशि	543888	504678	10392	2.1	-46561	-7.7	-39210	-7.2	45053	8.8	-50730	-9.1
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	41904	143	0.3	570	1.8	3396	8.8	6549	25.4	9592	29.7
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	992192	1023947	1011		163487		31755		252717		58509	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	989741	1013258	11727		164409		23517		252119		48376	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-200893	-517594	-4303		-359441		-316701		-307446		-311004	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-214059	-529767	-1740		-351222		-315708		-305272		-316033	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	4249125	-9392	-0.2	358638	12.6	658722	18.3	409708	14.6	1041900	32.5
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	26348	26541			235	0.9	193	0.7	426	1.7	418	1.6
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	1378342	1464944	-16323	-1.1	78296	7.4	86602	6.3	47123	4.3	327853	28.8

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ*	स्थायी चलनिधि सुविधा	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएसओ (एकमुश्त)		दीर्घकालीन रेपो परिचालन &	लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन #	म्यूचुअल फंड के लिए विशिष्ट चलनिधि सुविधा	एनबीएफसी/ एचएफसी के लिए विशेष चलनिधि योजना**	निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+6+9+10+11+12+13-2-4-7-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो*	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर				विक्रय	क्रय					
	1	2	3	4				8	9					
16 नवंबर 2020	-	22358	-	-	632	-	-	-	-	-	-	-	-	-21726
17 नवंबर 2020	-	717800	-	-	330	-2525	-	-	-	-	-	-	-493	-720488
18 नवंबर 2020	-	715755	-	-	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-715615
19 नवंबर 2020	-	730129	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-1025	-731154
20 नवंबर 2020	-	668078	-	-	266	-	-	10000	10000	-	-	-	-	-667812
21 नवंबर 2020	-	8016	-	-	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-7298
22 नवंबर 2020	-	219	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-209

*इसमें अतिरिक्त रिवर्स रेपो और अतिरिक्त एमएसएफ परिचालन शामिल हैं (16 दिसंबर 2019 से 13 फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए)।

#इसमें लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) और लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) दोनों शामिल हैं।

**'जुलाई 2020 की आरबीआई अधिसूचना संख्या 2020-21/01 के अनुसार ऋणात्मक (-) चिन्ह विशेष चलनिधि योजना में आरबीआई के निवेश स्वरूप प्राप्त परिपक्वता आय को दर्शाता है।'

& ऋण (-) का चिन्ह बैंकों द्वारा की गयी चुकोतियों को दर्शाता है।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2019		2020		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	सितंबर	अक्टूबर	सितंबर	अक्टूबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च-अंत की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	145.8	147.2	156.4	158.4	1.3	6.6	7.6
1.1 ग्रामीण	146.7	148.3	157.5	159.7	1.4	6.6	7.7
1.2 शहरी	144.7	146.0	155.2	156.8	1.0	6.4	7.4
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	-	-	118.0	..	-	-	-
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	121.3	122.0	122.9	123.8	0.7	2.8	1.5
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	143.0	145.5	150.3	152.4	1.4	10.9	4.7
3.2 ईंधन और बिजली	100.6	102.3	91.0	91.1	0.1	- 8.4	- 10.9
3.3 विनिर्मित उत्पाद	117.9	117.8	119.8	120.3	0.4	1.4	2.1

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
23 अक्टूबर 2020	78340	4635	3.65 - 4.25
6 नवंबर 2020	76335	1687	3.83 - 3.84

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
31 अक्टूबर 2020	380112	40839	3.19 - 14.19
15 नवंबर 2020	389427	57002	3.09 - 11.32

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	22 नवंबर 2019	13 नवंबर 2020	20 नवंबर 2020
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	21914	14308	10765
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	939	607	4858
3 सीबीएलओ#	308704	385681	515057
4 बाजार रेपो	189037	326228	380750
5 कॉर्पोरेट बांड में रेपो	2074	3320	8110

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

20 नवंबर 2020 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	2357	11215	70680	209886
182-दिवसीय	140282	39002	4233	277278
364-दिवसीय	138677	120149	15627	406497
सीएमबी				

#दिनांक 05 नवंबर 2018 से मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट को समाप्त किया गया, तथा उसके स्थान पर त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2020 - 21 (20 नवंबर 2020 तक)	2019 - 20 (22 नवंबर 2019 तक)	2019-20	2020 - 21 (20 नवंबर 2020 तक)	2019 - 20 (22 नवंबर 2019 तक)	2019-20
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	905000	538000	710000	774428	436972	473972
2. राज्य सरकारें	472848	316002	634521	388193	226950	487454

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762 में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <https://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री एस एम लोकरे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।